



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 886]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939

No. 886]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 1343(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित करने का विचार रखती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या एम एस, सीपीसीवी और वैज्ञानिक 'डी' को ई-मेल mscpcpcb@nic.in और h.kharkwal@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में अनुसूची-I में क्र. सं. 105 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट की जाएंगी, अर्थात:—

क्र.सं.	औद्योगिक बायलर का प्रकार (ईंधनवार)	मानदण्ड	
		SO ₂	NO _x
105 क	कृषि आधारित ईंधन*	-	-
105 ख	प्राकृतिक गैस*	-	-
105 ग	पेटकोक और पेटकोक मिश्रण**	ठोस ईंधन के लिए 6% शुष्क O ₂ और	ठोस ईंधन के लिए 6% शुष्क O ₂
105 घ	अन्य ईंधन	तरल ईंधन के लिए 3% शुष्क O ₂ पर 600 मिलिग्राम / Nm ³	और तरल ईंधन के लिए 3% शुष्क O ₂ पर 300 मिलिग्राम / Nm ³

*यह सा.का.नि. 176 (अ) दिनांक, 02 अप्रैल, 1996 के द्वारा अधिसूचित चट्टे की ऊंचाई के अनुपालन के लिए अपेक्षित है।

इन उद्योगों अर्थात् (1) चीनी (2) सूती कपड़ा (3) समिश्रित ऊन मिल (4) सिन्थेटिक रबर (5) लुग्दी और कागज (6) आसवनियां (7) चमड़ा उद्योग (8) कैल्शियम कार्बाइड (9) कार्बन ब्लैक (10) प्राकृतिक रबर (11) एस्बेस्टोस (12) कॉस्टिक सोडा (13) छोटे बायलर (14) अल्यूमीनियम संयंत्र (15) चर्म शोधनालय (16) अकार्बनिक रसायन (17) चूना भट्टा (18) शीशा उद्योग (19) सिरेमिक (20) ढलाई के कारखाने और (21) पुनः तापन भट्टियों में प्रयुक्त बायलर उक्त अधिसूचना में दिये गये उत्सर्जन मानदण्डों का पालन करेंगे। ** सतत ऑन लाइन SO₂ उत्सर्जन निगरानी प्रणाली को प्रतिष्ठापित किया जाएगा और उसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ऑन लाइन प्रदूषण निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

नोट:

ठोस ईंधनों जैसे कोयला, लिग्नाइट इत्यादि का प्रयोग करने वाले आबद्ध विद्युत संयंत्रों के लिए अधिसूचना सं. का.सा. 3305(अ), दिनांक 07 दिसंबर, 2015 के द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन सीमा लागू होगी

[फा. सं. क्यू-15017/20/2017-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेंथिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

नोट : मूल नियम भारत का राजपत्र असाधारण भाग-II खंड-3, उपखंड-(i) का.आ. सं. 844(अ), दिनांक 19 नवंबर, 1986 में प्रकाशित किये गये थे और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. 1016(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के द्वारा संशोधित किये गये थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2017

G.S.R. 1343(E) .—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to MS, CPCB and Scientist 'D' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

Draft Notification

The Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after serial number 105 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Type of industrial boiler (fuel wise)	Standards	
		SO ₂	NO _x
105A	Agro based fuel*	-	-
105B	Natural gas*	-	-
105C	Petcoke and Petcoke blend**	600 mg/Nm ³ at 6% dry O ₂ , for solid fuel and 3% dry O ₂ for liquid fuel	300 mg/Nm ³ at 6% dry O ₂ , for solid fuel and 3% dry O ₂ for liquid fuel
105D	Other fuels		

* It is required to meet stack height criteria notified vide GSR 176 (E), dated April 02, 1996.

The boiler used in the industries, namely (1) sugar (2) cotton textiles (3) composite woollen mills (4) synthetic rubber (5) pulp and paper (6) distilleries (7) leather industries (8) calcium carbide (9) carbon black (10) natural rubber (11) asbestos (12) caustic soda (13) small boilers (14) aluminium plants (15) tannery (16) inorganic chemical (17) lime kiln (18) glass industry (19) ceramic (20) foundries and (21) re-heating furnaces, shall adhere to emission norms in the said notification. **Continuous online SO₂ emission monitoring system to be installed and linked with Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board online pollution monitoring System.

Note:

For captive power plants using Solid fuels such as coal, lignite, etc. the emission limit notified for Thermal Power Plants vide notification no S.O. 3305(E), dated December 07, 2015 shall be applicable.

[F. No. Q-15017/20/2017-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19" November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 1016(E), dated the 28" October, 2016.